



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 चैत्र 1932 (श0)  
(सं0 पटना 224) पटना, मंगलवार, 6 अप्रील 2010

सं0 एम04-55/2001—1607/वि0(2)  
वित्त विभाग

संकल्प

17 फरवरी 2010

विषय:—केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही नियुक्ति) के पदाधिकारियों को मोबाईल फोन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना द्वारा केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही नियुक्ति) के स्थापना का गठन किया गया है। केन्द्रीय चयन पर्षद में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के लिए मोबाईल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभागीय प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त कार्य की महत्ता को देखते हुए निम्नरूपेण निर्णय लिए गये हैं:—

- (i) केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही नियुक्ति) के अध्यक्ष/सचिव/लेखा पदाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक को, पद पर बने रहने तक मोबाईल की सुविधा प्रदान की जाती है।
- (ii) मोबाईल सेटों का क्रय सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प संख्या 3269, दिनांक 16 दिसम्बर 2005 में निर्धारित व्यय सीमा 5000 (पाँच हजार) रु0 के अन्तर्गत किया जाएगा। उसका व्यय कार्यालय व्यय मद में प्रावधानित राशि से करेंगे।
- (iii) मोबाईल फोन पर होने वाले व्यय के लिए 9000 (नौ हजार) रु0 मात्र प्रति वित्तीय वर्ष की अधिसीमा निर्धारित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
खुर्शीद अहमद,  
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 224-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>